

File No. QA-11/1/2024-QA-FSSAI
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)
(गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग)/ (Quality Assurance Division)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002

Dated: 15 October, 2024

आदेश / Order

विषय : खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियमन, 2018 के अनुसार एनएबीएल प्रतीक के साथ परीक्षण रिपोर्ट प्रारूप का अनिवार्य उपयोग- के संबंध में ।

Subject: Mandatory use of test report formats as per Food Safety and Standards Rules, 2011 and amendments thereof and Food Safety and Standards (Import) Regulation, 2017 with NABL Symbol -reg.

1. उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें परीक्षण रिपोर्ट प्रारूप, फॉर्म VII A 'खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट' और फॉर्म XI 'विश्लेषण का प्रमाण पत्र' (अपील नमूनों के लिए) प्रकाशित किए गए हैं।

With reference to above subject, the Food Safety and Standards (First Amendment) Rules, 2022 has been notified wherein the test report formats **Form VII A 'Report of the Food Analyst' and Form XI 'Certificate of Analysis by the Referral Food Laboratory' (for appeal samples)** have been published.

2. इस संबंध में, एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) और 43(2) के तहत सभी एफएसएसआई अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सूचित और निर्देश दिया जाता है कि वे सभी निगरानी और प्रवर्तन नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट जारी करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रथम संशोधन) नियमों 2022 के तहत दिए गए परीक्षण रिपोर्ट प्रारूपों फॉर्म VII ए और फॉर्म XI का पालन करें।

In this regard, all the FSSAI notified food testing laboratories u/s 43(1) and 43(2) of FSS Act, 2006 are hereby informed and instructed to follow the test report formats given under Food Safety and Standards (First Amendment) Rules, 2022 for issuing test reports for all the surveillance and enforcement samples.

3. आयातित खाद्य उत्पादों के लिए अधिसूचित प्रयोगशाला या रेफरल प्रयोगशाला, जैसा भी मामला हो, खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियमन, 2017 के अनुसार फॉर्म - 2 में प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करेगी।

For imported food products the notified laboratory or referral laboratory, as the case may be, shall provide the laboratory analysis report in **FORM - 2** as per **Food Safety and Standards (Import) Regulation, 2017**.

4. चूंकि प्रयोगशालाएं आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं, इसलिए उन्हें अपने मान्यता के दायरे में आने वाले परीक्षणों के लिए परीक्षण रिपोर्ट में एनएबीएल 133 ("एनएबीएल प्रतीक के उपयोग की नीति और/या मान्यता का दावा") में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार एनएबीएल प्रतीक का उपयोग करना आवश्यक है।

Since, the laboratories are accredited as per ISO/IEC 17025:2017, they are required to use the NABL symbol in accordance with the guidelines specified in **NABL 133 ("Policy for Use of NABL Symbol and/or Claim of Accreditation")** in the test report for tests that are covered under their scope of accreditation.

Signed by

Dr. Satyen Kumar Panda

Date: 15-10-2024 17:14:12

डॉ सत्येन कुमार पांडा/Dr Satyen Kumar Panda

सलाहकार/Advisor

गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग/Quality Assurance Division

Encl: As above

To (Through email):

1. All Food Safety Commissioners
2. FSSAI notified laboratories

Copy for information to (Through email):

1. PS to Chairperson, FSSAI, New Delhi
2. PS to CEO, FSSAI, New Delhi
3. ED (RCD), FSSAI, New Delhi
4. Director (Imports), FSSAI, New Delhi
5. CITO FSSAI, New Delhi-for upload on the FSSAI website

“Form VII A

Report of the Food Analyst

[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4 (6)]

Report No. _____.

Certified that I _____ (name of the Food Analyst) duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for _____ (name of the local area) received from _____* a sample of _____, bearing Code number and Serial Number _____ of Designated Officer of _____ area* on _____ (date of receipt of sample) for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:

I found the sample to be (category of the sample) falling under Regulation No.____ of _____. The sample **was in a condition fit for analysis and has been analysed on _____ (give date of starting and completion of analysis) and the result of its analysis is given below/** was not in a condition fit for analysis for the reason given below:

Reasons:

.....

Analysis report

- (i) Sample Description

- (ii) Physical Appearance

Sl. No.	Quality characteristics	Nature of method of test used	Result	Prescribed standards as per <ul style="list-style-type: none"> a. As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder b. As per label declaration for proprietary food
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Opinion***

Signed this _____ day of _____ 20

(Sd/-) Food Analyst.

Address:

* Give the details of the senders

** Strike out whichever is not applicable

***When opinion and interpretation are included, document the basis upon which the opinions or interpretations have been made.

(9) After Form X , the following Form shall be inserted, namely:-

“FORM XI

(See rule 2.4.6(3))

CERTIFICATE OF ANALYSIS BY THE REFERRAL FOOD LABORATORY

Certificate No.

Certificate that the sample, bearing numberpurporting to be a sample/of was received on with Memorandum No. Dated From [Name of the Court] for analysis. The condition of seals on the container and the outer covering on the receipt was as follows:
.....
.....

I (name of the Director)_ found the sample to be (Category of food sample) falling under Regulation No. of Food Safety and Standards(Food Products and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on (Give date of starting and completion of analysis) and the result of its analysis is given below /*was not in a condition fit for analysis for the reasons given below:—

Reason: —

.....

Analysis Report: —

(i) Sample Description: —

(ii) Physical Appearance: —

(iii) Label: —

Sl.No.	Quality Characteristics	Characteristics Name of the Method of the test used Results Prescribed Standards as per:- (a) As per Food Safety and Standards (Food Products and Food Additive) Regulations, 2011 (b) As per label declaration for proprietary foods (c)As per the provisions of the Act and Regulations, for both above
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Opinion **

Place:

(Signature)

Date:

Director Referral Food Laboratory

(Seal)

* Strike out whichever is not applicable.

** When opinion and interpretation are included, document the basis upon which the opinions/interpretations have been made.

FORM – 2

[See regulation 10(5)]

REPORT OF LABORATORY ANALYSIS

Name of Laboratory Address

Test Certificate No: □□□□□□□□

Date: □□□□□□□□

Report of Laboratory Analysis

1. Sample Identification : *Sample No:*
2. Ref No :
3. Sample received from :
4. Sample Particulars : *Brief description of sample material*
5. Volume / Weight :
6. Sample received Date and Time : Time: □□□□ on □□□□□□
7. Lot / Batch No :
8. Date of Manufacture : □□□□□□ (mmyyyy)
9. Fee Received : Yes
10. Lab Code No : *code assigned by laboratory for its records*

A. Physical Examination

11. Type of Packaging :
12. Condition of Package : ___
13. Physical Appearance of sample : ___
14. Labelling – Details sufficient : Yes No

15. If condition of packaging or sample or details provided in the label is not acceptable, provide reason: _____

B. Laboratory Analysis

16. Analysis date of starting:

Analysis date of completion:

Test results

S No:	Quality Parameters	Specified limit as per FSSR/ as per COA if not mentioned in FSSR	Test Results	Test method
	Safety Parameters			

C. Conclusion:

The sample conforms to the specifications laid down for all the parameters in the Act and the rules and regulations made thereunder.

The sample does not conform to the specifications laid down in the Act and the rules and regulations made thereunder for the parameters.

Place

Signature

Date

Name and Seal and Designation